



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940

No. 181]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 281(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम सिक्का निर्माण (श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव" के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सिक्कों का अंकित मूल्य.**—“श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में तीन सौ पचास रुपये के मूल्य के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा।
- सिक्कों की विमाएं और संरचना.**—नियम 2 में उल्लिखित अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:—

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
तीन सौ पचास रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	<b>चतुर्थक मिश्र धातु</b> रजत— 50 प्रतिशत तांबा— 40 प्रतिशत निकल— 05 प्रतिशत जस्ता— 05 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.**—सिक्कों का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।
5. **मानक वजन तथा अनुज्ञात छूट.**—श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव मनाने के लिए उपर्युक्त अंकित मूल्य के बनाए गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात छूट वह होगी जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगी।

**पहली अनुसूची**

**(नियम 4 देखें)**

**(I) तीन सौ पचास रुपये**

**अग्र भाग**

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में "भारत" शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक "₹" और अंतरराष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "350" भी होगा।

**पृष्ठ भाग**

सिक्के के इस भाग पर मध्य में "तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब" का चित्र होगा तथा चित्र में देवनागरी में "तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब" उत्कीर्णित होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव" और निचली परिधि पर अंग्रेजी में "350<sup>th</sup> PRAKASH UTSAV OF SRI GURU GOBIND SINGH JI" उत्कीर्णित होगा। सिक्के के बायीं और दायीं परिधि पर अंतरराष्ट्रीय अंकों में वर्ष "1666" और "2016" अंकित होगा।

**दूसरी अनुसूची**

**(नियम 5 देखें)**

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुमत छूट	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
तीन सौ पचास रुपये	35 ग्राम	रजत में 1/500वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् रजत के अंश में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा।	1/100वां जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम के बीच हो सकता है।

[फा. सं. 04/03/2016-सिक्का]

ईप्सिता मित्रा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2018

**G.S.R. 281(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of 350<sup>th</sup> Birth Anniversary of Shri Guru Gobind Singh Ji) Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Denomination of Coins.**—The coin of three hundred fifty rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of "350<sup>th</sup> Birth Anniversary of Shri Guru Gobind Singh Ji".

- 3. Dimension and composition of coin.**—The coin of the denominations mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of Serrations	Metal Composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Three Hundred Fifty Rupees	Circular 44 millimeter	200	<b>Quaternary Alloy</b> Silver - 50 Per cent Copper - 40 Per cent Nickel - 05 Per cent Zinc - 05 Per cent

- 4. Design.**—The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules.

- 5. Standard weight and remedy allowed.**—The Standard weight of the coin of the above denomination coined to commemorate the occasion of 350<sup>th</sup> Birth Anniversary of Shri Guru Gobind Singh Ji and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

### FIRST SCHEDULE

(See Rule 4)

#### THREE HUNDRED FIFTY RUPEES

##### OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in the Devanagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English and it shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “350” in International Numerals below the Lion Capitol.

##### REVERSE:

This face of the coin shall bear the picture of “Takht Shri Harimandir Ji Patna Sahib” in the centre, with inscription “तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब” in Devanagari in the picture. The inscription “श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव” shall be written in Devanagari script on the upper periphery and “350<sup>TH</sup> PRAKASH UTSAV OF SRI GURU GOBIND SINGH JI” in English language on the lower periphery of the coin are made. The year “1666” and “2016” in international numerals shall be flanked on the left and right periphery of the coin.

### SECOND SCHEDULE

(See Rule 5)

Denomination of coin	Standard Weight	Remedy Allowed	
		In composition	In Standard Weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Three Hundred Fifty Rupees	35 Grams	1/500 <sup>th</sup> plus or minus for silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 <sup>th</sup> plus or minus that is to say, weight could vary from 34.65grams to 35.35 grams.

[F.No. 04/03/2016-Coin]

IPSITA MITRA, Under Secy.